



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1937 (श०)
(सं० पटना 722) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2015

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

30 जून 2015

सं० एम1-008/2014-14—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या—56/2015(1)रा.द.अनु.-III/PPS-II दिनांक 04.06.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव—सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001, दिनांक 04 जून, 2015/14 ज्येष्ठ, 1937 (शक)

सं. 56/2015 (1) रा.दल.अनु-III—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं. 56/2015/रा.दल.अनु.II, तारीख 13.01.2015 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- II (राज्यीय दल) में-

(i) सिक्किम राज्य के संबंध में क्रम सं. 20 पर विद्यमान 'सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा', से संबंधित कॉलम नंबर 4 में विद्यमान प्रविष्टि को, प्रविष्टि 'टेबल लैप' के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में-

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1737 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएंगी-

क्र० सं०	पार्टी का नाम	पता
1738.	राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल	ग्राम मोहल्ला- नगला काशी तहसील- धौलाना, जिला- हापुड़, उत्तर प्रदेश- 245301
1739.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी	म० सं०- 1, कसाना निवास, ग्राम- मोरना, सेक्टर- 35, नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश- 201308
1740.	अहिंसावादी जनता पार्टी	एन.टी.पी.सी. मुख्य गेट के पास, नौफरी, ग्राम- लोधई, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश
1741.	ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी	1- आनंदनगर, पोस्ट- आनंदनगर, थाना- कल्याणी, जिला- नदिया, पश्चिमी बंगाल- 741245
1742.	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्प्लेक्स, आल्हाद नगर, वार्ड नं०- 14, जिला कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गड़चिरोली, महाराष्ट्र- 442605
1743.	एम पॉलिटीकल पार्टी	543, बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, रूप नं०- 179, सीईएन नं०- 301, केप्टन प्रकाश पट्टे मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400005
1744.	भारतीय जनमुक्ति पार्टी	ग्राम- डुन्दुर, पोस्ट- लठेया, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू, झारखण्ड- 822116
1745.	अनैतीन्डीया समुदाय मक्कल काची	80, कूलढाई वेलन लेन, मेन रोड, डिडिगुल, तमिल नाडु- 624001
1746.	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं०. 9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 53
1747.	अपना राज फ्रंट	मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।
1748.	मजदूर विकास दल	क्वाटर नं. प्लाट-ई/124, फेज- I, छिन्द, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिसा- 769015

क्र० सं०	पार्टी का नाम	पता
1749.	भारत जनता दल (तुंगलक)	ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना, ब्लाक- बघरा, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
1750.	जनपालना पार्टी (डेमोक्रेटिक)	8-2-703/2/बी, प्लॉट नं. 2, रोड नं.- 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500034
1751.	अन्जान आदमी पार्टी	भवन सं. 391/II7ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1752	गरीब जनता दल (सेकुलर)	मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होल्डिंग नम्बर- 470, साकेत विहार, अनिसाबाद, पटना- 2, बिहार
1753.	स्वराज जनता पार्टी	बी- 79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
1754.	केरला विकास काँग्रेस	ई.पी-III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632
1755.	आप और हम पार्टी	वार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार
1756.	जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2, भामियन खुर्द, भामियन रोड, लुधियाना, पंजाब- 141010.
1757.	भारत उत्थान पार्टी	ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच उत्तर प्रदेश- 271904.
1758.	भारतीय कौटिल्य सेना	आर 14/6 (बिसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
1759.	एकता विकास महासभा पार्टी	सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैनपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ. सदर-पटना, जिला-पटना बिहार- 800001
1760.	समुगा मक्कल काची	नं. 3, मुदालियर गली, वलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु- 602105
1761.	देशवादी पार्टी	मकान नं. 2184 डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016

क्र० स०	पार्टी का नाम	पता
1762.	जनतावादी कांग्रेस पार्टी	161/बी, शिवाजी मैदान के सामने, स्वदेशी मिल रोड, चुनाभट्टी (पूर्व), मुंबई- 400037, महाराष्ट्र
1763.	विकास इंसाफ पार्टी	मकान नं. 23, वार्ड नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ, गोदाम के पास, तहसील- सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश - 212601
1764.	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरुमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
1765.	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522501
1766.	भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी	ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई- 400074, महाराष्ट्र
1767.	भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी	भवन नं० 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, मुर्शैना, मध्य प्रदेश- 476001
1768.	सर्वजन हिताय पार्टी	70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003
1769.	नेशनल पीपुल्स काँग्रेस	मकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरुणोदया अपार्टमेन्ट, स्ट्रीट नं०-15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश
1770.	राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी	सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील- महरौली, नई दिल्ली- 110076.
1771.	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं०- 393- आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी, बशारतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1772.	नैशनल अधिकार इंसाफ पार्टी	मकान नं. -230, गली नं०- 7, एस० ए० एस० नगर, अबोहर रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब
1773.	अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी	177/क्यू/94, एल०आईसी० सोसाइटी, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208024
1774.	भारत माता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- कटका, जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	पार्टी का नाम	पता
1775.	जनता सरकार पार्टी	I-4/39, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर- 16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
1776.	अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी	एफ- 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- 110041
1777.	तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची	मकान नं०- 1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबटूर, तमिल नाडु- 641021
1778.	भारतीय संग्राम परिषद	48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400001
1779	राष्ट्रीय जन जन पार्टी	ग्राम- नवादा खुर्द, पोस्ट- सहदुल्लहपुर, भाया- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार
1780.	इंटरनेशनल पार्टी	ब्लॉक बी-5, प्लैट नं. 111, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
1781.	न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी	मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतघर, भिवंडी, जिला ठाणे, महाराष्ट्र- 421305
1782.	राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी	एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर- ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(ii) क्र.सं. 597 अर्थात् 'गुजरात परिवर्तन पार्टी' से संबंधित स्तम्भ 1, 2 व 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा।

(iii) क्रम सं. 1079 के सामने स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'नवोदयम पार्टी' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम सं. 1301 के सामने स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) क्रम सं. 373 के सामने 'भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों '113, मलिकपुर, जी.टी.बी. नगर, दिल्ली- 110009' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) क्रम सं. 83 के सामने 'अखिल भारतीय आमजन पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों 'मुकाम, पोस्ट- लाड़पुरा, गाँव- गगवाना, जिला- अजमेर, राजस्थान- 305023' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम सं. 750 के सामने 'जनराज्य पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों '110/F/10A/1A, गाँव- कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद- 211001, उत्तर प्रदेश' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम सं. 229 के सामने 'बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों म. स.- B-33/103, मोहल्ला- शहरियान, कपूरथला, पंजाब' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी- IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) में-

(i) क्रम सं. 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों, ऑटो-रिक्शा, (आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम सं. 46 पर विद्यमान प्रविष्टि को, प्रविष्टियों 'टोप' (आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) क्रम सं. 51 एवं 52 पर विद्यमान प्रविष्टियों अर्थात् 'केतली' एवं 'लेडी पर्स', को विलोपित किया जाएगा।

(iv) क्रम सं. 75 पर विद्यमान प्रविष्टि अर्थात् 'टेबल लैम्प', को विलोपित किया जाएगा।

आदेश से,
वरिन्दर कुमार,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated: 4th June, 2015/

14 Jyaistha, 1937 (Saka).

No. 56/2015 (I)/PPS-III – In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following amendments to its Notification No. 56/2015/PPS-II, dated 13.01.2015, namely:-

1. *In Table II* (State Parties), appended to the said Notification –

(i) Against Sl. No. 20 in respect of the State of Sikkim, the existing entry under column No. 4 related to 'Sikkim Krantikari Morcha', shall be substituted with the entry 'Table Lamp'.

2. *In Table III* (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification –

(i) After the existing entries at Sl. No. 1737, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively:-

TABLE

Sl. No.	Name of the Party	Address
1738.	Rashtriya Lok Tantra Dal	Gram Mohalla – Nagla Kashi, Tehsil – Dhaulana, District – Hapur, Uttar Pradesh – 245301.
1739.	Pashchimi Uttar Pradesh Vikas Party	H.No. 1, Kasana Niwas, Village – Morna, Sector – 35, Noida, District – Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh – 201308.
1740.	Ahinsawadi Janata Party	Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.
1741.	Global People Peace Party	1 No. Anandanagar, P.O. Anandanagar, P.S.-Kalyani, District – Nadia, West Bengal – 741245.

Sl. No.	Name of the Party	Address
1742.	The Public Welfare Party	Sonapur Complex, Alhadnagar, Ward No.14 East of Zilla Complex High School Gadchiroli, Maharashtra – 442605.
1743.	Aim Political Party	543, Babasheb Ambedkar Society, Room No. 179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai, Maharashtra – 400005.
1744.	Bhartiya Janmukti Party	Village – Dundur, P.O. Latheya, P.S. – Chhatarpur, District – Palamau, Jharkhand – 822116.
1745.	Anaithindiya Samuthaya Makkal Katchi	80, Kuzhandhai Velan Lane, Main Road, Dindigul, Tamil Nadu – 624001.
1746	Ujala Party	E-26, Gali No.9, Near Water Tank, Subhash Vihar, Bhajanpura, Delhi-53.
1747	Apna Raj Front	House No.1096, Sector-7, Bahadurgarh, Haryana.
1748	Mazdoor Vikash Dal	At-Qtr. No.Plot-E/124, Phase-I, Chhend, Rourkela, Dist- Sundargarh, Odisha-769015
1749	Bharat Janta Dal (Tughlaq)	Village-Nirman, Post-Nirman, Block- Baghra, Thana- Shahpur, Dist-Muzaffarnagar. Uttar Pradesh.
1750	Janapaalana Party (Democratic)	8-2-703/2/B, Plot No.2, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500034.
1751	Anjaan Aadmi Party	House No. 391/117A/1, Radha Nagar Colony, Phulwariya Road Daraganj, Allahabad Uttar Pradesh.
1752	Garib Janta Dal (Secular),	Mitra Mandal Colony, Ward No.11, Located Holding No. 470, Saket Vihar, Anishabad, Patna-2 Bihar.

Sl. No.	Name of the Party	Address
1753	Swaraj Janata Party	B-79-B, Street No. 7, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
1754	Kerala Vikas Congress	EP.III/468, Eruvessi Village, P.O.- Chemperi, Taliparamba Taluk, Kannur District, Kerala- 670632
1755	Aap Aur Hum Party	Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla-Basanti Gali, District – Muzaffarpur, Bihar
1756	Jan Shakti Party of India	House No.2, Bhamian Khurd, Bhamian Road, Ludhiana, Punjab-141010
1757	Bharat Utthan Party	Village- Harni Ausari, Pragana-Hissampur, Post- Arai Umri Tehsil- Kaiserganj, District –Bahraich, Uttar Pradesh – 271904.
1758	Bhartiya Kautilya Sena	R-14/6(Basement), Rajnagar, In Front of Square Mall Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1759	Ekta Vikas Mahasabha Party	Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana-Pataliputra Colony, Post-G.P.O., Sadar- Patna, District –Patna, Bihar-800001
1760	Samuga Makkal Katchi	No.3 Mudalair Street, Vallam Village, Kanchepuram Dt. Tamil Nadu – 602105.
1761	Deshvadi Party	House No.2184, D-Block, Indira Nagar, Janpad – Lucknow, Uttar Pradesh- 226016
1762	Jantawadi Congress Party	161/B, Opp. Shivaji Garden, Swadeshi Mill Road, Chunabhatti (E), Mumbai, Maharashtra – 400037.
1763	Vikas Insaf Party	House No. 23, Ward No. 10, Mahmoodpur Pargana, Near P.C.F. Godown, Tehsil- Sadar, District – Fatehpur, Uttar Pradesh-212601

Sl. No.	Name of the Party	Address
1764	Telengana Independent Party	House No.5-2-13, Tirumala Nagar, Moulali, R.R. District, Kapra Circle, Hyderabad, Andhra Pradesh- 500040
1765	Studentz United For Nation Party	D.No. 12-464/4, B-Block, Tadepalli, District-Guntur, Andhra Pradesh – 522501
1766	Bhartiya Janhit Congress Party	A-3, Room No. 602, 6 th Floor, R.N.A. Park, Vashi Naka, R.C. Marg, Chembur, Mumbai, Maharashtra – 400074
1767	Bhartiya Gramin Samaj Party	Bhawan No. 15/357, Near Bharoshi ki Dharamshala, Pancham Wali Gali, Duttpura, Morena, Madhya Pradesh-476001
1768	Sarvajan Hitay Party	70/59, Leader Road, Allahabad, Uttar Pradesh – 211003.
1769	National People's Congress	H.No. 3-6-200, Flat No. 105, Arunodaya Apartment, Street No.15, Himayatanagar, Hyderabad-500029, Andhra Pradesh
1770	Rastriya Aam Jan Seva Party	C-90, Khasra No. 770, Madanpur Khaddar Extension, Tehsil, Mehrauli, New Delhi-110076
1771	Yuva Anubhav Party	House No. – 393 – I, Haritima, Rajiv Nagar, West Basharatpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
1772	National Adhikar Insaf Party	House No. – 230, Street No. – 7, S.A.S. Nagar, Abohar Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab
1773	Akhil Bhartiya Sawarn Party	177/Q/94, LIC Society, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh – 208024.
1774	Bharat Mata Party	Village & Post – Katka, District – Mirzapur, Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Party	Address
1775	Janta Sarkar Party	I-4/39, Ground Floor, Sector – 16, Rohini, Delhi-110089
1776	Akhil Bhartiya Aapki Apni Party	F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi – 110041
1777	Tamilnadu Telurigu Makkal Katch	Door No.-1/803, Opposite Karpagam University, Pollachi Main Road, Coimbatore, Tamil Nadu – 641021
1778	Bharatiya Sangram Parishad	48, Bank Street, Khatau Building, Ground Floor, S.B.S. Road, Opposite Old Custom House, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001
1779	Rashtriya Jan Jan Party	Village- Nawada Khurd, Post- Sahdullahpur, Via- Hajipur, District- Vaishali, Bihar.
1780	International Party	Block-B-5, Flat No.-111, Yamuna Vihar, Delhi-110053
1781	New Rashtriya Samaj Party	H.No. 167/2/5/F/4, 1 st Floor, Bramhanand Nagar, Tadali Road, Kamatghar, Bhiwandi, District- Thane, Maharashtra- 421305
1782	Rashtravyapi Janta Party	M.M.S. 1/84, Sector – A, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.

(ii) Entries under column 1, 2 and 3, pertaining to ‘Gujarat Parivartan Party’ mentioned at Sl. No. 597 shall be deleted.

(iii) Against Sl.No. 1079 the existing entries under column 2 shall be substituted by the entries ‘Navodayam party’.

(iv) Against Sl. No. 1301 the existing entries under column 2 shall be substituted by the entries ‘Rashtriya Jan-Jagran Morcha’.

(v) Against Sl. No. 373 in respect of ‘Bharatiya Sarvodaya Kranti Party’, the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries ‘113, Malikpur, G.T.B. Nagar, Delhi-110009.

(vi) Against Sl. No. 83 in respect of ‘Akhil Bhartiya Aamjan party’, the existing entries under column 3 shall be substituted by the entires ‘Mukam Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023’.

(vii) Against Sl.No. 750 in respect of ‘Jan Raajya Party’, the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries ‘110/F/10A/1A, Kanahipur Village, Dhoomangunj, Allahabad-211001, Uttar Pradesh’.

(viii) Against Sl. No. 229 in respect of 'Bahujan Samaj party (Ambedkar)', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'H.No.- B-33/103, Mohalla Shehrian, Kapurthala, Punjab'.

3. *In Table IV* (List of Free Symbols), appended to the said Notification-

(i) The existing entry at Sl.No. 3 shall be substituted by the entries 'Auto-Rickshaw (In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)'.

(ii) The existing entry at Sl.No. 46 shall be substituted by the entries 'Hat (In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)'.

(iii) The existing entries at Sl.No. 51 and 52 i.e. 'Kettle' and 'Lady Purse' shall be deleted.

(iv) The existing entry at Sl.No. 75 i.e. 'Table Lamp' shall be deleted.

By order,
VARINDER KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 722-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>